

विद्युततकनीकीविभाग

हमारा सन्दर्भ : ईटीडी 18/ G-1& ईटीडी /G-25

22-01-2021

विषय : भारतीय मानकों की पुनः पुष्टि/ Reaffirmation of Indian Standards

निम्नलिखित भारतीय मानकों का,

ईटीडी 18 द्वारा उनकी पुनः पुष्टिकरण 2021 में आगामी पांच वर्षों के लिए पुनः पुष्टिकरण किया गया है

The Indian Standards given below have been reaffirmed in 2021 by the ETD 18 for a further period of five years.

S No.	IS No.	Title	Reaffirmation Date
1	IS/IEC 60534 (Part 2 / Sec 3) : 1997	Industrial-Process Control Valves - Part 2 Flow Capacity - Section 3 Test Procedures	Jan-2021
2	IS 12306 : 1987	Methods of test for direct arc melting furnaces	Jan-2021
3	IS/IEC 62264 (Part 1) : 2003	Enterprise-Control System Integration - Part 1 Models and Terminology	Jan-2021
4	8992:1978	Test methods for induction furnaces with submerged channels	Mar-2021
5	IS 9021 : 1978	General test conditions for industrial electro-heating equipment	Mar-2021
6	IS 9029 : 1978	Methods of tests for batch furnaces with metallic heating resistors	Mar-2021
<u>7</u>	IS 9050 : 1979	Nominal Dimensions of Cylindrical Machined Graphite Electrodes with Threaded Sockets and Connecting Pins for Use in Electric Arc Furnaces	Mar-2021
<u>8</u>	IS 9080 (Part 2 / Sec 1) : 1979	Safety requirements in electro-heat installations Part 2 Particular requirements for resistance heating equipment Section 1 Protection in direct resistance heating installations	Mar-2021
<u>9</u>	IS 9080 (Part 2 / Sec 2) : 1980	Safety requirements in electro-heat installations Part 2 Particular requirements for resistance heating equipment Section 2 Protection in indirect resistance heating installations	Mar-2021
<u>10</u>	IS 9080 (Part 2 / Sec 4) : 1981	Safety requirements in electro-heat installations Part 2 Particular requirements for resistance heating equipment Section 4 Protection in installations used for drying	Mar-2021

		varnishes and other similar products	
<u>11</u>	IS 9080 (Part 4) : 1981	Safety requirements in electro-heat installations Part 4 Particular requirements for arc furnace installations	Mar-2021
<u>12</u>	IS 10098 : 1982	General requirements for electric infra-red emitters for heating purposes	Mar-2021
<u>13</u>	IS 10122 : 1982	Methods of tests for crucible induction furnaces	Mar-2021
<u>14</u>	10215 : 1982	Methods of tests for submerged arc furnaces	Mar-2021
<u>15</u>	IS 14254 (Part 1) : 2006	Programmable controller Part 1 General information	Mar-2021
<u>16</u>	IS 9080 (Part 2 / Sec 3) : 1981	Safety requirements in electro-heat installations Part 2 Particular requirements for resistance heating equipment Section 3 Protection in potassium and sodium nitrate and nitrite bath furnaces	Mar-2021

निदेशक (बिक्री) /डी(पीयूबी)/ डी(एलएससी) से अनुरोध है की वे उपरोक्त भारतीय मानकों पर पुनः पुष्टिकरण के वर्ष की स्थापना के लिए उचित कार्यवाही करें।

Director (Sales) / D(Pub)/D(LSC) may kindly take suitable action for affixing the year of reaffirmation to the above mentioned standard.

(प्रीति भटनागर) / (Priti Bhatnagar)
वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (ईटीडी)/Sc.'F' & Head (ETD)

निदेशक (बिक्री) /D(Sales)
डी(पीयूबी)/ D(Pub)
डी(एलएससी)/ D(LSC)

Copy to :i) All Departments and Offices of BIS (by mail)
ii) ITS: with the request to host on the intranet

विद्युततकनीकीविभाग

हमारा सन्दर्भ : ईटीडी 19/ G-1& ईटीडी /G-25

22-01-2021

विषय : भारतीय मानकों की पुनः पुष्टि/ Reaffirmation of Indian Standards

निम्नलिखित भारतीय मानकों का,

ईटीडी 19 द्वारा उनकी पुनः पुष्टिकरण 2021 में आगामी पांच वर्षों के लिए पुनः पुष्टिकरण किया गया है

The Indian Standards given below have been reaffirmed in 2021 by the ETD 19 for a further period of five years.

S No.	IS No.	Title	Reaffirmation Date
1	IS 2165 (Part 1) : 1977	Insulation coordination Part 1 Phase to earth insulation coordination principles and rules	Mar-2021
2	IS 8690 : 1977	Application guide for measuring devices for high voltage testing	Mar-2021
3	IS 15638 (Part 1) : 2006 IEC 61083-1 (2001)	Instruments and software used for measurement in high-voltage impulse tests Part 1 Requirements for Instruments	Mar-2021

निदेशक (बिक्री) /डी(पीयूबी)/ डी(एलएससी) से अनुरोध है की वे उपरोक्त भारतीय मानकों पर पुनः पुष्टिकरण के वर्ष की स्थापना के लिए उचित कार्यवाही करें।

Director (Sales) / D(Pub)/D(LSC) may kindly take suitable action for affixing the year of reaffirmation to the above mentioned standard.

(प्रीति भटनागर) / (Priti Bhatnagar)
वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (ईटीडी)/Sc.'F' & Head (ETD)

निदेशक (बिक्री) /D(Sales)

डी(पीयूबी)/ D(Pub)

डी(एलएससी)/ D(LSC)

Copy to :i) All Departments and Offices of BIS (by mail)
ii) ITS: with the request to host on the intranet

विद्युततकनीकीविभाग

हमारा सन्दर्भ : ईटीडी 29/ G-1& ईटीडी /G-25

22-01-2021

विषय : भारतीय मानकों की पुनः पुष्टि/ Reaffirmation of Indian Standards

निम्नलिखित भारतीय मानकों का,

ईटीडी 29 द्वारा उनकी पुनः पुष्टिकरण 2021 में आगामी पांच वर्षों के लिए पुनः पुष्टिकरण किया गया है

The Indian Standards given below have been reaffirmed in 2021 by the ETD 29 for a further period of five years.

S No.	IS No.	Title	Reaffirmation Date
1	IS 1709 : 1984	Capacitors for Electric Fan Motors	Mar-2021
2	IS 9251 : 1979	Capacitors for inductive heat generating plants operating at frequencies between 40 and 24 000 Hz	Mar-2021
3	IS 9835 (Part 1) : 2001	Series Capacitors for Power Systems - Part 1 General Performance Testing and Rating - Safety Requirements - Guide for Installation	Mar-2021
4	IS 11530 : 1985	Voltage Grading Capacitor	Mar-2021
5	IS 11548 : 1986	Capacitors for surge protection for use in voltage system above 650 V and upto 33kV	Mar-2021
6	IS 12672 : 1989	Internal Fuses and Internal Overpressure Disconnectors for Shunt Capacitors	Mar-2021
7	IS 12677 : 1989	Internal Fuses for Series Capacitors	Mar-2021
8	IS 12730 : 1989	Internal Fuses and Internal Overpressure Disconnectors for Capacitors for Inductive Heat Generating Plants	Mar-2021
9	IS 13203 : 1991	Method for Verifying Accuracy of Tan Delta Measurements	Mar-2021

निदेशक (बिक्री) /डी(पीयूबी)/ डी(एलएससी) से अनुरोध है की वे उपरोक्त भारतीय मानकों पर पुनः पुष्टिकरण के वर्ष की स्थापना के लिए उचित कार्यवाही करें।

Director (Sales) / D(Pub)/D(LSC) may kindly take suitable action for affixing the year of reaffirmation to the above mentioned standard.

(प्रीति भटनागर) / (Priti Bhatnagar)

वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (ईटीडी)/Sc.'F' & Head (ETD)

निदेशक (बिक्री) /D(Sales)

डी(पीयूबी)/ D(Pub)

डी(एलएससी)/ D(LSC)

Copy to :i) All Departments and Offices of BIS (by mail)

ii) ITS: with the request to host on the intranet

विद्युततकनीकीविभाग

हमारासन्दर्भ : ईटीडी 34/G-1& ईटीडी/G-25

22-01-2021

विषय : भारतीय मानकों की पुनःपुष्टि/Reaffirmation of Indian Standards

निम्नलिखित भारतीय मानकों का,

ईटीडी 34 द्वारा उनकी पुनःपुष्टिकरण 2021 में आगामी पांच वर्षों के लिए पुनःपुष्टिकरण किया गया है

The Indian Standards given below have been reaffirmed in 2021 by the ETD 34 for a further period of five years.

S. No.	IS No.	Title	Reaffirmation Date
1	IS 16227 (Part 2) : 2016	Instrument Transformers Part 2 Additional Requirements for Current Transformers	Feb-2021

निदेशक (बिक्री) /डी(पीयूबी)/ डी(एलएससी) से अनुरोध है की वे उपरोक्त भारतीय मानकों पर पुनःपुष्टिकरण के वर्ष की स्थापना के लिए उचित कार्यवाही करें।

Director (Sales) / D(Pub)/D(LSC) may kindly take suitable action for affixing the year of reaffirmation to the above mentioned standard.

(प्रीति भटनागर) / (Priti Bhatnagar)

वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (ईटीडी)/Sc.'F' & Head (ETD)

निदेशक (बिक्री) /D(Sales)

डी(पीयूबी)/ D(Pub)

डी(एलएससी)/ D(LSC)

Copy to :i) All Departments and Offices of BIS (by mail)

ii) ITS: with the request to host on the intranet